

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
माध्यमिक - अर्थशास्त्र

पाठ 20: अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पहलू
कार्य पत्र - 20

1. लोग परंपरागत रूप से खनन और उत्खनन जैसे व्यवसायों का अभ्यास कर रहे हैं जिसमें वस्तु निर्माण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित ऐसे विभिन्न व्यवसायों की सूची बनाइए।
2. कृषि प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय है और राष्ट्रीय आय में इसका सबसे बड़ा हिस्सा भी है। किसी देश के आर्थिक विकास में प्राथमिक क्षेत्र विशेषकर कृषि के योगदान के विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए।
3. विनिर्माण उद्योग अन्य लाभों के अलावा बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हैं जो सीधे देश की प्रगति में योगदान करते हैं। उन विभिन्न तरीकों की चर्चा कीजिए जिनसे औद्योगीकरण अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करता है।
4. किसी देश में अवसर और निवेश सुनिश्चित करने के लिए सेवा क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। बताएं कि सेवा क्षेत्र के विकास ने देश को विश्व स्तर पर कैसे लाभ पहुंचाया है।
5. "अर्थव्यवस्था के सभी तीन क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं और किसी न किसी तरह से एक दूसरे के पूरक हैं।" उपरोक्त कथन के आलोक में, उदाहरणों की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के बीच संबंध स्थापित करें।
6. आस-पास के एक बाजार का दौरा करें और उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की एक सूची बनाएं और उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत करें।
7. माध्यमिक और सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस कथन के प्रकाश में, उदाहरण सहित समझाइए कि किस प्रकार इन क्षेत्रों की वृद्धि के साथ रोजगार दरों में सुधार हुआ है।
8. राष्ट्रीय आय में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के बारे में डेटा एकत्र करें। पता लगाएँ कि कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान देता है और इस प्रवृत्ति के कुछ कारणों का उल्लेख करें।

9. औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद भी, राष्ट्रीय आय में इसके योगदान ने अपेक्षित प्रगति दर्ज नहीं की है। औद्योगिक क्षेत्र में वांछित प्रगति प्राप्त करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए जिन्हें अपनाया जा सकता है।
10. कृषि के पारंपरिक तरीकों की तुलना में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को लाभान्वित किया जा सकता है। कथन को विस्तृत कीजिए।